



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

15 जुलाई 2026

दिनांक 30 जून 2026 तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और पेमेंट बैंकों सहित)			सभी अनुसूचित बैंक		
	27-जून-2025#	15-जून-2026	30-जून-2026	27-जून-2025#	15-जून-2026	30-जून-2026
I बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (क)						
क) बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	371106.12	408096.94	438382.44	376915.24	415993.93	450668.96**
ख) बैंकों से लिये गये ऋण	100640.87	72123.46	59713.34	100646.66	72244.34	60331.54
ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं	24746.46	51876.18	50710.62	25181.72	52556.67	51707.52
II अन्य के प्रति देयताएं (क)						
क) जमाराशियां (बैंकों से ली गयी जमाराशियों से इतर)	23425645.34	25841688.67	26538493.32	23916585.60	26386233.55	27079983.13
i) मांग	3072874.36	3190797.16	3535578.53	3121709.46	3249742.88	3595930.10
ii) मीयादी	20352770.98	22650891.51	23002914.79	20794876.13	23136490.66	23484053.03
ख) ऋण @	850218.49	971348.09	839970.21	854691.40	976460.24	845136.09
ग) अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1046816.10	1253293.67	1186944.47	1060708.59	1268779.36	1202341.49
III भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये ऋण (ख)	1065.00	32882.00	147049.00	1065.00	32882.00	147049.00
मीयादी बिलों और/या वचनपत्रों पर लिये गये ऋण						
IV नकदी	86670.83	76503.07	82747.80	89277.88	79186.56	85510.55
V भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा रकम (ख)	933483.32	754621.74	788467.60	952696.65	770033.48	803751.65
VI बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
क) अन्य बैंकों के पास शेष राशि						
i) चालू खातों में	22784.78	8173.35	14503.74	25081.95	10446.30	17821.99
ii) अन्य खातों में	251046.16	272259.74	262188.32	315496.75	345548.94	331717.21
ख) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	24041.39	25656.16	28065.90	42284.67	58176.29	56672.08
ग) बैंकों को प्रदान किये गये अग्रिम (अर्थात् बैंकों से प्राप्य)	31557.62	38862.66	42058.06	33677.44	42166.72	45267.22
घ) अन्य आस्तियां	69084.42	97814.06	104156.68	74372.55	102972.04	108651.90
VII निवेश (बही मूल्य के अनुसार)	6696801.88	7069846.68	7087253.24	6854333.32	7251979.14	7264468.76
क) केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में+	6696347.54	7069348.99	7086758.65	6845968.60	7240340.30	7253047.80
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	454.34	497.69	494.59	8364.72	11638.84	11420.96
VIII बैंक ऋण (अंतर बैंक अग्रिमों को छोड़कर)	18486199.66	21547116.12	21928364.69	18956023.54	22059295.52	22441492.22
क) ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट\$	18146380.43	21112803.32	21482219.52	18613283.09	21622515.31	21993004.47
ख) खरीदी गयी देशी ढुंडियां	79559.74	106876.22	111383.43	80511.11	106899.22	111405.57
ग) भुनाई गयी देशी ढुंडियां	223845.47	293089.32	299189.73	225234.08	294910.09	300944.04
घ) खरीदी गयी विदेशी ढुंडियां	13787.47	13628.76	13468.10	14007.15	13831.80	13647.99
ङ) भुनाई गयी विदेशी ढुंडियां	22626.54	20718.51	22103.92	22988.10	21139.09	22490.14

नोट

ये आंकड़े पिछले वर्ष के शुक्रवार की रिपोर्टिंग ('पखवाड़े' की पुरानी परिभाषा के अनुसार) से संबंधित हैं और यह 30 नवंबर, 2026 की प्रेस प्रकाशनी के प्रकाशन तक जारी रहेगा।

(A) मांग और मीयादी देयताओं में राज्य सरकार से किसी भी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा लिये गये उधार तथा ऐसे बैंकों के परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैंक में रखी गयी आरक्षित निधि जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

** इसमें अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के पास रखी गयी सहकारी बैंकों की जमाराशियां शामिल नहीं हैं। इनको मद II(क) में शामिल किया गया है।

@ रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय निर्यात-आयात बैंक से इतर।

(B) ये आंकड़े रिज़र्व बैंक से भारत के अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा लिये गये उधार तथा रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि से संबंधित वे आंकड़े हैं जो रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण में दर्शाये गये हैं। मीयादी बिलों और/या वचनपत्रों के एवज में लिये गये उधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(सी) के अंतर्गत हैं। 11 जुलाई 2014 से एलएएफ लेनदेनों की लेखा पद्धतियों में परिवर्तन के बाद बैंक के तुलन पत्र और लाभ और हानि लेख के फॉर्मेट की समीक्षा करने के लिए गठित मालेगाम समिति की सिफारिशों के अनुसार रेपो/मीयादी रेपो/एमएसएफ संबंधी लेनदेन "आरबीआई से उधार" के अंतर्गत प्रतिबिंबित हुए हैं।

Â इसमें अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी बैंकों को दिये गये अग्रिम शामिल नहीं हैं। ये मद VIII(क) के अंतर्गत शामिल किये गये हैं।

+ इसमें खज़ाना बिल, खज़ाना जमाराशियां, खज़ाना बचत प्रमाणपत्र और डाक संबंधी देयताएं शामिल हैं।

\$ इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी खाद्यान्न खरीद एजेंसियों (अर्थात्, भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार और खाद्य सहायता संघ के अंतर्गत उसकी एजेंसियां) को दिए गए अग्रिम शामिल हैं।

निम्नलिखित तिथियों को बकाया खाद्यान्न ऋण			
(राशि ₹ करोड़ में)			
दिनांक	27-जून-2025#	15-जून-2026	30-जून-2026
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	64388.73	133894.60	132049.25
अनुसूचित सहकारी बैंक	51974.00	52074.00	52074.00

'बैंकिंग प्रणाली' अथवा 'बैंक' का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (डी) के उप-खंड (i) से लेकर (vi) में संदर्भित बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से है।

वर्तमान पखवाड़े में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सं: 120

वर्तमान पखवाड़े में अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की संख्या: 26

वर्तमान पखवाड़े में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की संख्या: 55

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/674

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)